



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2017/कार्तिक 30, 1939

No. 305]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2017/KARTIKA 30, 1939

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सं.एमओईएस/33/01/2017-स्था.—जबकि, राष्ट्रपति ने दिनांक 03.01.1996 के आदेश सं डीओडी /44-स्था./78/88 के जरिए 26.12.1995 से सागर संपदा प्रकोष्ठ, कोचीन को महासागर विकास विभाग का संबद्ध कार्यालय घोषित किया;

और जबकि, दिनांक 12.01.2001 के आदेश सं डीओडी /2- एफओआरवी/6/ 2000 के माध्यम से, राष्ट्रपति ने समुद्री सजीव संसाधन से संबंधित विभिन्न बहु-संस्थागत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग, समन्वय और संवर्धन करने के लिए महासागर विकास विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय सागर संपदा प्रकोष्ठ का नाम बदल कर " समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र (सीएमएलआरई) " कोच्चि करने का अनुमोदन प्रदान किया।

और जबकि, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी की गई दिनांक 16 फरवरी, 2006 की राष्ट्रपति की अधिसूचना सं. सीडी- 87/ 2008 के जरिए भारत सरकार (कार्य का आवंटन) के नियम 1961 में संशोधन करते हुए महासागर विकास विभाग को महासागर विकास मंत्रालय का नाम दिया गया ;

और जबकि तत्पश्चात् मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी की गई दिनांक 12 जुलाई 2006 की राष्ट्रपति की अधिसूचना सं. सी डी- 384/ 2006 के जरिए भारत सरकार (कार्य का आवंटन) के नियम 1961 में संशोधन करते हुए महासागर विकास मंत्रालय को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नाम दिया गया ;

अब, अंततः, उपरोक्त आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 26.12.1995 से "समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र (सीएमएलआरई) को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय(एमओईएस) (पूर्व में महासागर विकास विभाग) के संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

डॉ. विपिन चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EARTH SCIENCES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th Novemebr, 2017

No.MoES/33/01/2017-Estt.—WHEREAS, President vide Order No. DOD/44-Estt./78/88 dated 03.01.1996 was pleased to declare the Sagar Sampada Cell, Cochin as an Attached Office of the Department of Ocean Development with effect from 26.12.1995;

AND WHEREAS, vide Order No.DOD/2-FORV/6/2000 dated 12.01.2001, the President was pleased to approve the re-naming of Sagar Sampata Cell as “ Centre for Marine Living Resources and Ecology(CMLRE)”, Kochi an attached office under Department of Ocean Development to monitor, co-ordinate and promote the implementation of various multi-institutional scientific research programmes relating to Marine Living Resources.

AND WHEREAS, vide Presidential Notification No. CD-87/2008 dated 16th February, 2006 issued by Cabinet Secretariat ammending the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the Department of Ocean Development was named as Ministry of Ocean Development;

AND WHEREAS subsequently, vide Presidential Notification No.CD-384/2006 dated 12th July, 2006 issued by Cabinet Secretariat ammending the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the Ministry of Ocean Development was named as Ministry of Earth Sciences;

NOW, THEREFORE, in pursuance of above Orders and Notifications, the competent authority notify “Centre for Marine Living Resources and Ecology(CMLRE)”, Kochi as an attached office of Ministry of Earth Sciences(MoES) (earstwhile Ministry of Ocean Development) with effect from 26.12.1995.

Dr. VIPIN CHANDRA, Jt. Secy.